



## संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.03.2023

आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 255 / 2023 धारा 379 / 411 भादवि से संबंधित अभियुक्त नाम पता आकाश पाण्डेय पुत्र शत्रुधन पाण्डेय निवासी घोरही थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स रजि0 नं0 UP51AN9594 के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 20.03.2023 को नवीन सब्जी मंडी से उक्त मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया गया था, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस का विवरण:- प्रभारी चौकी नवीन मंडी उ0नि0 श्री सुरेश यादव मय हमराह।

**फरार चल रहे वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत 03 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 03 नफर वारंटी अभियुक्त नाम पता 1- रामचैन, 2- रामकिशुन पुत्रगण विदेशी, 3- रामसनेही पुत्र रामदास निवासीगण बरईपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामउग्रह प्रसाद, मु0आ0 सदानन्द यादव, कां0 चन्द्रशेखर सिंह, कां0 सत्येन्द्र चौहान, कां0 मिथिलेश वर्मा।



## संतकबीरनगर पुलिस



थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया

थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा गुमशुदा व्यक्ति श्री रामजी उपाध्याय पुत्र स्व० गोविन्द नारायण उपाध्याय, उम्र करीब 80 वर्ष निवासी रैधरपार थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

विदित हो कि उक्त गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में परिजनों द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर दिनांक 20.03.2023 को गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त गुमशुदा व्यक्ति को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया ।  
**बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-** प्रभारी चौकी बौरव्यास उ०नि० श्री अमित कुमार चतुर्वेदी, मु०आ० कय्यूम अंसारी ।

### पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा लावारिश हालात में मिली बच्ची को स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से परिजनों को किया गया सुपुर्द— पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत धनघटा से इवेन्ट संख्या 0926 से कालर ने एक लावारिश लड़की के मिलने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से लड़की के परिजनों की तलाश कर उसकी माता को सुपुर्द किया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर लड़की को परिजनों को सुपुर्द कर किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** –आ० शनि गुप्ता, म०आ० प्रेमा बिन्द, हो०चा० सुनील अग्रहरि ।



## संतकबीरनगर पुलिस



### शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 66 वाहनो से 68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 21.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 66 वाहनो से 68,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

